



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2004/माघ 7, 1925

No. 96]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2004/MAGHA 7, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2004

का.आ. 118(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 14ख की उपधारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि वह क्षेत्र, जिसके संबंध में दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 1-न्या./टी.डी.एस.ए.टी./2003, तारीख 13 अक्टूबर, 2003 से गठित दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण की न्यायपीठ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी, सम्पूर्ण भारत होगा।

[फा. सं. 15/9/2002-पुनर्गठन]

पी. के. तिवारी, उप सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2004

S.O. 118(E).—In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section (3) of Section 14B of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby notifies that the area in relation to which the Bench of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, constituted vide notification of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, New Delhi number I-Judl/TDSAT/2003, dated the 13th October, 2003, may exercise its jurisdiction, shall be the whole of India.

[F. No. 15/9/2002-Restg.]

P. K. TIWARI, Dy. Secy.